

AUTOMATIC RENEWAL

Date of Renewal	A/c. No.	Period	Amount	Interest Rate	/Due Date	Maturity Value	Officer's Signature
29/05/2019		1 yr.	254599/-	6.65%	29/05/2020	279571-	

न्यायिक पंजीकृत किया गया
Nomination Registered

हाँ Yes ☐ नहीं No ☐

दिनांक / Date _____
संदर्भ सं / Ref. No _____

अधिकारी / Officer
ह.क्र.सं. / S.S.No.

गृहणाधिकार विवरण / Lien Details

दर्ज किया गया / Marked on _____
रद्द किया गया / Cancelled on _____

दिनांक / Date _____
अधिकारी / Officer _____
ह.क्र.सं. / S.S.No. _____

1. _____
2. _____
3. _____

भुगतान रसीद / RECEIPT ON DISCHARGE

Received payment of _____
रुपये / Rupees _____

का भुगतान प्राप्त हुआ _____

राजस्व टिकट
Revenue Stamp

दिनांक / Date _____
समाकर्ताओं के हस्ताक्षर
Signature(s) of Depositor(s)

नियम व शर्तें TERMS & CONDITIONS

- प्रमाण - पत्र अहस्तान्तरणीय है।
Certificates are not transferable.
- जमाकर्ता को परिपक्वता प्राप्त करने के लिए प्रमाण-पत्र पर नियत तिथि दर्ज की जाती है, बैंक इसके अनुसार निवृत्ति तिथि की अन्य कोई सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है।
Due date is recorded on the certificate to enable the depositor to receive Maturity value. The Bank is not bound to give any further information of the due date.
- आवक्यता पर प्रमाण-पत्र किसी एक अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम जारी किए जाते हैं और उनका भुगतान उनमें से किसी एक अथवा अधिक व्यक्तियों को ही किया जा सकता है।
Certificate shall be issued on the name of one or more persons and made payable to any one of them or to the survivor or survivors.
- * क) साजरा के मामले में उस पर अधिभूति (Hypothecation) प्रदान की जाती है, रसीद प्रस्तुत करने पर अदा किया जाएगा।
a) In case of Fixed Deposit, thereon will be paid on production of Receipt, half yearly or on demand.
ख) मरणाधिकार (Nomination) के मामले में उस पर ब्याज प्रत्येक माह / तिमाही में अदा किया जाएगा।
b) In case of NIDR / QIDR, interest thereon will be paid every Month / Quarter.
ग) धन-ज.प. के मामले में प्रमाण-पत्र के परिपक्वता पूर्वक, जमा की गई राशि पर तिमाही अथवा वार्षिक अवधि पर परिचालित ब्याज शामिल होता है, जिसका पुनर्निवेश किया जाता है। अतः प्रमाण-पत्र दर्ज निवृत्ति तिथि से पहले ब्याज अदा नहीं किया जाएगा।
c) In case of MMDC, Maturity Value of the Certificate includes the interest calculated at quarterly of longer rests on the amount deposited, being re-invested with the Bank. No interest shall therefore be payable before the due date recorded on the Certificate.
- प्रमाण-पत्र पर दर्शाई गई निवृत्ति तिथि के बाद ब्याज की गणना नहीं होगी।
No interest shall be allowed on the Certificate after the due date indicated in the Certificate.
- प्रमाण-पत्र को सावधानीपूर्वक सुरक्षित रखा जाये। प्रमाण-पत्र किसी अन्य व्यक्ति के होख लगने पर और उनके कपटपूर्ण विवृत्ति किए जाने पर धारक (को) को होने वाली हानि के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं रहेगा।
Certificate must be carefully preserved. The Bank will not be responsible for any loss caused to the holder(s) by another person obtaining possession of the Certificate and fraudulently discharging it.
- निवृत्ति तिथि पर भुगतान प्राप्त करते समय जमाकर्ता (ओं) द्वारा प्रमाण-पत्र विधिवत टिकट लगा हुआ एवं हस्ताक्षरित वापस किया जाना चाहिए।
Certificate must be returned duly stamped and signed by the depositor(s) at the time of receiving payment on due date.
- प्रमाण-पत्र का भुगतान केवल जमाकर्ता (ओं) को विधिवत विमुक्त प्रमाण-पत्र सौंपने पर या जमाकर्ता (ओं) की ओर से, उचित परिस्थितियों में सही विमुक्त प्रमाण-पत्र देने पर, किसी व्यक्ति को किया जाएगा, किन्तु प्रमाण-पत्र का भुगतान इस पर अतिरिक्त रूप से प्रमाण-पत्र के सहित नहीं किया जाएगा।
Payment of the Certificate will be made to the depositor(s) only on surrender of the Certificate duly discharged or to any person on behalf of the depositor(s) if the discharged certificate is accompanied by a proper Letter of Authority, but no payment will be made before the due date marked on the Certificate.
- जमाकर्ता पर दी जाने वाली ब्याज दर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय - समय पर जारी निर्देशों के अधीन है।
The rate of interest payable on the deposit is subject to the directives that may be issued by the RBI from time to time.
- "Auto-renewal mandate will be treated as cancelled if the deposit is under Bank's lien" and depositor will give fresh mandate on due date/maturity date of the deposit.



शेन्ट्रल बैंक
ऑफ इंडिया

EMG/CCTDR/DARDIV

Central Bank
of India

(A Government of India Undertaking)
Central Office :
Chander Mukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

सं. N 061343

सा. ज. र. /

ध. वृ. ज. प्र. /

मा / त्रे / ब्या. ज. र. /

TERM DEPOSIT RECEIPT

प्रभावी होने की तारीख / Effective Date

29.05.2018

शाखा / Branch

खाला क्र. A/c No.

3681474699

जारी करने की तारीख / Date of Issue

29.05.2018

अनुत्तरणीय / NOT TRANSFERABLE

Received from

Mr. Taxmand Yadav

रुपये / Rupees

Two Lac forty thousand only

प्राप्त हुए

मूल राशि Principal Amount	परिवर्तन मूल्य (*) Maturity Value (*)	अवधि Period	व्याज दर Int. Rate	व्याज की प्रारंभिक / त्रैमा. किस्त Monthly/Qty./Inst of Int.	निधन तारीख Date
2,40,000/-	2,56,236/-	01 Yrs	6.60%		29/5/2019

विशेष अनुदेश
Special Instructions

जन्मतिथि Date of Birth
यदि अवयव हो if Minor

29/05/2020

नामिकन पंजीकृत किया गया
Nomination Registered

हाँ Yes
नहीं No

आहरण की सूचना दि.
Notice of withdrawal given on

को दी गई

प्रधिकृत हस्ताक्षरी / Authorised Signatory

ह. क्र. सं. / S.S. No.

प्रधिकृत हस्ताक्षरी / Authorised Signatory

ह. क्र. सं. / S.S. No.

Maturity Value/Interest amount is subjected to deduction of TDS as per IT Rules

BANK WILL DEDUCT TAX AT SOURCE FROM THE INTEREST PAID / ACCRUED, IF FORM 15G/15H IS NOT SUBMITTED IN THE MONTH OF APRIL EVERY YEAR